



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 191 नई दिल्ली, शनिवार, मई 7-मई 13, 2005 (वैशाख 17, 1927)  
No. 191 NEW DELHI SATURDAY, MAY 7--MAY 13, 2005 (VAISAKHA 17, 1927)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 2

[PART I—SECTION 2]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से संबंधित अधिसूचनाएं  
(Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court)

प्रधानमंत्री कार्यालय

नई दिल्ली-110011, दिनांक 31 मार्च 2005

सं० ए-11013/45/1996-पीएमए—पूर्व प्रधानमंत्री श्री पी० वी० नरसिंह राव का दिनांक 23 दिसम्बर 2004 को देहान्त हो जाने के परिणामस्वरूप, पूर्व प्रधानमंत्री के निजी सचिव के रूप में नियुक्त पुनर्नियोजित पेंशनभोगी श्री आर० के० खाण्डेकर दिनांक 31 मार्च 2005 के अपराह्न से पूर्व प्रधानमंत्री के निजी स्टाफ में अपनी ड्यूटी से कार्य मुक्त हो जाएंगे।

पी० के० राय, अवर सचिव

दिनांक 31 मार्च, 2005 के अपराह्न से प्रधानमंत्री कार्यालय में निदेशक के पद का कार्यभार छोड़ दिया है।

पी० के० राय, अवर सचिव

सं० ए० 11013/45/1996-पीएमए—पूर्व प्रधानमंत्री श्री पी० वी० नरसिंह राव का दिनांक 23 दिसम्बर, 2004 को देहान्त हो जाने के परिणामस्वरूप, पूर्व प्रधानमंत्री के अपर बिजा सचिव के रूप में नियुक्त पुनर्नियोजित पेंशनभोगी श्री के० आर० पाण्डे दिनांक 31 मार्च, 2005 के अपराह्न से पूर्व प्रधानमंत्री के निजी स्टाफ में अपनी ड्यूटी से कार्य मुक्त हो जाएंगे।

पी० के० राय, अवर सचिव

सं० ए-22012/01/2005-पीएमए—श्रीमती रेणुका कुमार, आई०ए०एस० (उ०प्र० : 87) ने केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर अपना कार्यकाल पूरा होने के परिणामस्वरूप

सं० ए० 11013/45/1996-पीएमए—पूर्व प्रधानमंत्री श्री पी० वी० नरसिंह राव का दिनांक 23 दिसम्बर, 2004 को निधन हो जाने के परिणामस्वरूप, मानव संसाधन विकास

मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा संवर्ग के उच्च श्रेणी लिपिक तथा पूर्व प्रधानमंत्री के सहायक निजी सचिव के रूप में नियुक्त श्री चैतन्य शर्मा दिनांक 31 मार्च, 2005 के अपराह्न से पूर्व प्रधानमंत्री के व्यक्तिगत स्टाफ में अपनी ड्यूटी से कार्य मुक्त हो जाएंगे।

पी० के० राय, अवर सचिव

### लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 28 सितम्बर 2004

सं० पीएफ 15/29/2004/जीएन-5264/ए एन-I—  
श्री राम लखन शक्ला को 8000-275-13500 रुपए के वेतनमान में लोक सभा में समाजवादी पार्टी के उपनेता (श्री रामजी लाल सुभन) के निजी स्टाफ में निजी सचिव के रूप में 10 अगस्त, 2004 से अगले आदेशों तक नियुक्त किया जाता है।

2. निजी सचिव के रूप में उनकी नियुक्ति सेवाधृति के आधार पर लोक सभा में समाजवादी पार्टी के वर्तमान उप-नेता के प्रसादपर्यंत और उनकी पदावधि के साथ सहविस्तारी होगी।

आनन्द बी० कुलकर्णी, संयुक्त सचिव

दिनांक 21 मार्च 2005

सं० पीएफ 2024(3)/जी एन-5417/एएन-I/2005—  
इस सचिवालय में 12000-375-16500 रुपए के वेतनमान में कार्यरत श्री एन० सी० गुप्ता, अवर सचिव का 21 मार्च, 2005 के अपराह्न से इस सचिवालय से कार्यमुक्त किया जाता है और तत्पश्चात् उनकी सेवाएं प्रतिनियुक्ति के आधार पर उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय को जन-जातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री के निजी स्टाफ में 12000-375-16500 रु० के वेतनमान में विशेष कार्य अधिकारी के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए सौंपी जाती हैं।

आनन्द बी० कुलकर्णी, संयुक्त सचिव

सं० पीएफ 2925 (3)/जी एन-5426/ए एन-I/2005—गृह मंत्रालय, नई दिल्ली में प्रतिनियुक्ति से वापस आने पर श्रीनिवासुलु गुण्डा ने इस सचिवालय में 8000-275-13500 रु० के वेतनमान में विधायी/समिति/कार्यकारी/प्रोटोकॉल अधिकारी के रूप में 1 अप्रैल, 2005 के पूर्वान्तर से अपना कार्यभार पुनः ग्रहण कर लिया है।

आनन्द बी० कुलकर्णी, संयुक्त सचिव

दिनांक 15 अप्रैल 2005

सं० पीएफ 2925 (3)/जी एन-5430/ए एन-I/2005—अध्यक्ष महोदय, 8000-13500 रु० के वेतनमान में

कार्यरत कार्यकारी/विधायी/समिति/प्रोटोकॉल अधिकारी श्री श्रीनिवासुलु गुण्डा को 10000-325-15200 रु० के वेतनमान में सहायक निदेशक के ग्रेड में 1 अप्रैल, 2005 से अगले आदेशों तक तदर्थ नियुक्त करते हैं।

2. सहायक निदेशक के ग्रेड में श्री श्रीनिवासुलु गुण्डा, श्री राजेश रंजन कुमार से रैंक में वरिष्ठ रहेंगे किंतु श्री हरीश चन्दर-II से कनिष्ठ रहेंगे। तथापि, सहायक निदेशक के ग्रेड में उनकी परस्पर वरिष्ठता दिनांक 20-12-2003 के आर एंड सी एस आदेश सं० पी० डी० ए-1076/2003 के अनुसार विनियमित होगी।

आनन्द बी० कुलकर्णी, संयुक्त सचिव

सं० पीएफ 1367(3)/जीएन-5428/एएन-I/2005—  
अध्यक्ष महोदय, 12000—16500 रुपए के वेतनमान में अवर सचिव के पद पर कार्यरत, श्री आर० के० बजाज को 12750-375-16500 रुपए के वेतनमान में उप सचिव के ग्रेड में तदर्थ आधार पर 4 मार्च, 2005 से अगले आदेशों तक सहर्ष नियुक्त करते हैं।

आनन्द बी० कुलकर्णी, संयुक्त सचिव

सं० पीएफ 2501(3)/जीएन-5429/एएन-I/2005—  
अध्यक्ष महोदय, 10000—15200 रुपए के वेतनमान में सहायक निदेशक के पद पर कार्यरत, श्री जे० बी० जी० रेड्डी को 12000-375-16500 रुपए के वेतनमान में अवर सचिव के ग्रेड में तदर्थ आधार पर, 4 मार्च, 2005 से अगले आदेशों तक सहर्ष नियुक्त करते हैं।

आनन्द बी० कुलकर्णी, संयुक्त सचिव

### योजना आयोग

नई दिल्ली, दिनांक 11 अप्रैल 2005

सं० ए-12025/2/2004-प्रशा० II—योजना आयोग में वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी के रूप में तदर्थ नियुक्ति का एक वर्ष पूर्ण होने पर, श्रीमती रेनु लाल को उनके मूल संगठन अर्थात् जनसाधन अनुसंधान संस्थान में 11-04-2005 के अपराह्न से प्रत्यावर्तित किया जाता है।

के० के० छाबड़ा, अवर सचिव

दिनांक 15 अप्रैल 2005

सं० ए-12025/2/2004-प्रशा० II—योजना आयोग की दिनांक 30 दिसम्बर, 2004 को समतुल्यक अधिसूचना के क्रम में योजना आयोग में श्रीमती रेनु लाल, वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी, जनसाधन अनुसंधान संस्थान की वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी के रूप में तदर्थ प्रतिनियुक्ति की अवधि क. 1-4-2005 से 11-04-2005 तक की अवधि के लिए कार्यान्तर बढ़ाया जाता है।

के० के० छाबड़ा, अवर सचिव

## सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

नई दिल्ली-1, दिनांक 9 मार्च 2005

सं० 12018/1/2005-आईएनएस—श्रम और रोजगार मंत्रालय के श्रम ब्यूरो में सहायक निदेशक के रूप में तैनात, भारतीय सांख्यिकी सेवा के कनिष्ठ समयमान स्तर के अधिकारी, श्री कुलदीप चंद सूद अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर 28-2-2005 अपराह्न से सेवा से सेवा निवृत्त हो गए।

भारती दत्ता, अवर सचिव

## विधि एवं न्याय मंत्रालय

(न्याय विभाग)

नई दिल्ली-110011, दिनांक 15 अप्रैल 2005

सं० के० 13022/1/2005-यू० एस० I—राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायविद श्री राजीव गुप्ता को उस तारीख, जब वे अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे, से केरल उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश सहर्ष नियुक्त करते हैं।

डॉ० पी० के० सेठ, संयुक्त सचिव

## गृह मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 19 अप्रैल 2005

सं० 14016/22/2000-यू०टी०एस०-II—दिल्ली और अंडमान एवं निकोबार द्वीप सङ्घ पुलिस सेवा नियम, 1971 के नियम 25 के उप-नियम (1) के खंड (क) के अनुसार, दिल्ली पुलिस के तत्कालीन निरीक्षक श्री सेवक सिंह को 6-11-1972 से स्थानापन्न आधार पर दिल्ली और अंडमान एवं निकोबार द्वीप सङ्घ पुलिस सेवा के ग्रेड-II में नियुक्त किया जाता है। इसके परिणामस्वरूप, गृह मंत्रालय के दिनांक 14 मई, 2002 के आदेश सं० 14040/7/96-यू०टी०एस०-II के तहत प्रकाशित दानिप्त अधिकारियों की वरिष्ठता सूची में श्री सेवक सिंह का नाम क्रम सं० 232 के बजाय श्रीमती एम० डी० बट्ट के नाम के नीचे तथा श्री चिरंजीव लाल के नाम के ऊपर क्रम सं० 122-क पर लिखा जाएगा।

एन० जे० थामस, अवर सचिव

(राजभाषा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 2 अप्रैल 2005

सं० 12013/11/2001-रा०भा०(का०-1)—राष्ट्रपति सहर्ष श्री आर० एस० रावत को गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग के अंतर्गत क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय में दिनांक 27-3-2005 (पूर्वाह्न) से तीन वर्ष अथवा अगले आदेशों, इन दोनों में जो भी पहले हो, तक की अवधि के लिए

प्रतिनियुक्ति आधार पर सहायक निदेशक (कार्यान्वयन) नियुक्त करते हैं।

श्रीमती सरोज जैतिबा, अवर सचिव

## कामिक, लोक-शिकायत और पेंशन मंत्रालय

(कामिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 20 अप्रैल 2005

सं० 13017/55/2004-अ०भा०से०(i)—केन्द्रीय सरकार, भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 6 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार सरकार और ए०जी०एम०यू०टी० (अरुणाचल प्रदेश) संवर्ग के संवर्ग नियंत्रक प्राधिकरण के रूप में गृह मंत्रालय की सहमति से, एतद्वारा श्री पी० के० पटनायक भारतीय प्रशासनिक सेवा (आर० आर० : 80) की भारतीय प्रशासनिक सेवा के बिहार संवर्ग से भारतीय प्रशासनिक सेवा के ए०जी०एम०यू०टी० संवर्ग (अरुणाचल प्रदेश) में उनके द्वारा पदभार ग्रहण करने की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति का अनुमोदन करता है।

के० के० शर्मा, डेस्क अधिकारी

सं० 13017/44/2001-अ०भा०से०(1)—केन्द्रीय सरकार, भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 6 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा पंजाब सरकार और ए०जी०एम०यू०टी० संवर्ग के संवर्ग नियंत्रक प्राधिकरण के रूप में गृह मंत्रालय की सहमति से, श्री करण ए० सिंह, भारतीय प्रशासनिक सेवा (आर० आर० : 84) को पंजाब संवर्ग से ए०जी०एम०यू०टी० संवर्ग में दिनांक 04-07-2004 से 06-11-2004 तक अंतः संवर्गीय प्रतिनियुक्ति पर प्रविष्ट करने तथा उन वर्ष रहने (ओवर स्टै) की अवधि को एतद्वारा निगमित करता है।

के०के०शर्मा, डेस्क अधिकारी

सं० 13017/44/2003-अ०भा०से०(1)—केन्द्रीय सरकार, भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 6 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मणिपुर-त्रिपुरा और उत्तरांचल सरकारों की सहमति में, एतद्वारा श्रीमति निधि मणि त्रिगठो, भारतीय प्रशासनिक सेवा (आर० आर० : 2001) की भारतीय प्रशासनिक सेवा के मणिपुर-त्रिपुरा संवर्ग से भारतीय प्रशासनिक सेवा के उत्तरांचल संवर्ग में, उनके द्वारा उत्तरांचल राज्य में पदभार ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए अंतर संवर्ग प्रतिनियुक्ति का अनुमोदन करता है।

के०के०शर्मा, डेस्क अधिकारी

सं० 13017/13/2003-अ० भा० से० (I)—केन्द्रीय सरकार भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 6 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा सरकार और ए०जी०एम० यू०टी० संवर्ग के संवर्ग नियंत्रक प्राधिकरण के रूप में गृह मंत्रालय की सहमति से, एतद्द्वारा श्री अरुण कुमार, भारतीय प्रशासनिक सेवा (हरियाणा : 89) की भारतीय प्रशासनिक सेवा के हरियाणा संवर्ग से भारतीय प्रशासनिक सेवा के ए०जी०एम० यू०टी० संवर्ग में 29-5-2005 से आगे एक वर्ष की अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति के विस्तार का अनुमोदन करती है।

के० के० शर्मा, डेस्क अधिकारी

दिनांक 26 अप्रैल 2005

सं० 13017/4/2005-अ० भा० से० (I)—केन्द्रीय सरकार, भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 5 के उप नियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मणिपुर-त्रिपुरा तथा पश्चिम बंगाल सरकारों की सहमति से श्रीमती अर्चना, भा० प्र० से० (अ० आ० : एम० टी० 2002) को भा० प्र० से० के मणिपुर-त्रिपुरा संवर्ग से पश्चिम बंगाल संवर्ग में, तत्काल प्रभाव से, एतद्द्वारा स्थानांतरित करती है।

के०के०शर्मा, डेस्क अधिकारी

नई दिल्ली, दिनांक 20 अप्रैल 2005

सं० 14015/02/2004-अ० भा० से० (I)-ख—भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के विनियम 9 के उप विनियम (1) तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियम, 1954 के नियम 3 के साथ पठित, भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 8 के उप नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, संयुक्त अरुणाचल, गोवा, मिजोरम, संघ राज्य क्षेत्र संवर्ग के मिजोरम खण्ड की राज्य सिविल सेवा के अधिकारी श्री सी० थनचुमा, अनुसूचित जनजाति को भारतीय प्रशासनिक सेवा में परिवीक्षा पर तत्काल प्रभाव से अगले आदेशों तक नियुक्त करते हैं और उन्हें भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियम, 1954 के नियम 5 के उप नियम (1) के अधीन संयुक्त अरुणाचल गोवा, मिजोरम संघ राज्य क्षेत्र संवर्ग के मिजोरम खण्ड में आबंटित करते हैं।

जगन लाल, अवर सचिव

सं० 14015/02/2004-अ० भा० से० (I)-क—भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियमावली, 1955 के विनियम 7 के उप विनियम (3) में विहित उपबन्धों के अनुसार, संघ लोक सेवा आयोग ने

भारतीय प्रशासनिक सेवा के संयुक्त अरुणाचल, गोवा, मिजोरम, संघ राज्य क्षेत्र संवर्ग के मिजोरम खण्ड में वर्ष 2004 के संबंध में एक (01) रिक्ति भरने हेतु चयन समिति द्वारा 15 दिसम्बर, 2004 को आयोजित अगनी बैठक में तैयार की गई संयुक्त अरुणाचल, गोवा, मिजोरम, संघ राज्य क्षेत्र संवर्ग के मिजोरम खण्ड की राज्य सिविल सेवा के सदस्य श्री सी० थनचुमा (अनुसूचित जनजाति) (जन्म तिथि 01-03-1951) के नाम वाली वर्ष 2004 की प्रवर सूची अनुमोदित कर दी है।

जगन लाल, अवर सचिव

दिनांक 21 अप्रैल 2005

सं० 14015/14/2004-अ० भा० से० (I)-ख—भारतीय प्रशासनिक सेवा (चयन द्वारा नियुक्ति) विनियमावली, 1997 के विनियम 8 के उप विनियम (1) तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 3 के साथ पठित, भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 8 के उप नियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, महाराष्ट्र को राज्य सिविल सेवा से इतर सेवा के अधिकारी श्री एस० एस० देशमुख को, भारतीय प्रशासनिक सेवा में परिवीक्षा पर तत्काल प्रभाव से अगले आदेशों तक नियुक्त करते हैं और उन्हें भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 5 के उप नियम (1) के अधीन महाराष्ट्र संवर्ग में आबंटित करते हैं।

जगन लाल, अवर सचिव

सं० 14015/14/2004-अ० भा० से० (I)-क—भारतीय प्रशासनिक सेवा (चयन द्वारा नियुक्ति) विनियमावली, 1997 के विनियम 7 के उप विनियम (1) में विहित उपबन्धों के अनुसार, संघ लोक सेवा आयोग ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के महाराष्ट्र-संवर्ग में वर्ष 2004 के संबंध में विद्यमान एक (01) रिक्ति भरने हेतु चयन समिति द्वारा 27 दिसम्बर, 2004 को आयोजित अगनी बैठक में तैयार की गई महाराष्ट्र राज्य सिविल सेवा से इतर सेवा के सदस्य श्री एस० एस० देशमुख (जन्म तिथि 11-09-1958) के नाम वाली वर्ष 2004 की प्रवर सूची अनुमोदित कर दी है।

जगन लाल, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 21 अप्रैल 2005

सं० ए-32014/1/2005-प्रशा० I—राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के गृह मंत्रालय के निम्नलिखित सहायकों को कार्यालय और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 17-2-2005 के कार्यालय ज्ञापन में दी गई शर्तों के अध्याधीन



उनके नाम के सामने दर्शाई गई तारीख से अगले आदेश होने तक कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग में 6500-200-10500/- रुपए के वेतनमान में तदर्थ आधार पर अनुभाग अधिकारी नियुक्त करते हैं।

क्र० सं०	नाम	नियुक्ति तारीख
	सर्व/श्री	
1.	वासिरियन तिरकी	29-3-2005 (पूर्वाह्न)
2.	सुरेन्द्र कुमार	-वही-

एन० के० पुष्पाकरन उप सचिव

वित्त मंत्रालय  
(आर्थिक कार्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 24 मार्च 2005

एफ० सं० 3/25/2004-मुद्रा-III-राष्ट्रपति, भारत प्रतिभूति मुद्रणालय/करेंसी नोट मुद्रणालय, नमसिक रोड, संयुक्त संवर्ग के सहायक कार्य प्रबंधक श्री एम० एन० कटारे का इसी संवर्ग में नियमित आधार पर 10,000-325-15200/- रु० (समूह 'क' राजपत्रित) के वेतनमान में दिनांक 11-3-2005 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक उप कार्य प्रबंधक के पद पर नियुक्त करते हैं।

ए० के० खन्ना, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 15 अप्रैल 2005

सं० 2/3/2003-सिक्का-I-राष्ट्रपति, श्री एन० के० चौधरी, संयुक्त महाप्रबंधक, आयुध कारखाना, बदमल को 01-01-2005 (पूर्वाह्न) से अथवा आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो, तीन वर्षों की अवधि के लिए प्रतिनिभुक्ति आधार पर 18,400-22,400/- रु० के वेतनमान में भारत सरकार टकसाल में महाप्रबंधक के पद पर नियुक्त करते हैं।

अपराजिता चौधरी, उप सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 15 अप्रैल 2005

सं० पीएफई(185)-प्रशा०-2/प्रशा०-Iए-राष्ट्रपति वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग में आर्थिक अधिकारी श्री वी० के० वासुदेव का केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम के नियम 48 के अंतर्गत सफ़ारी सेवा से स्वेच्छिक सेवा-निवृत्ति का आवेदन दिनांक 9-4-2005 (पूर्वाह्न) से स्वीकार करते हैं।

नीलम बोहरा, अवर सचिव

(विनिवेश विभाग)

नई दिल्ली-110003, दिनांक 25 अप्रैल 2005

सं० 9 (5)/2005-प्रशा०-श्री ए० के० जैन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (उत्तर प्रदेश : 70) ने भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (विनिवेश विभाग) में 25 अप्रैल 2005 के पूर्वाह्न में सचिव के पद का कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

एस० के० बन्दोपाध्याय, उप-सचिव

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 11 अप्रैल 2005

सं० ए 5(3)/2004-ईपीजेड-राष्ट्रपति द्वारा श्री पी०वी० जगन मोहन, आईएएस (यूपी: 87) को दिनांक 30-3-05 (अपराह्न) से 5 वर्ष की अवधि अथवा अगले आदेशों तक 15,100-18,300 रुपए के वेतनमान में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग के अंतर्गत संयुक्त विकास आयुक्त मद्रास विशेष आर्थिक क्षेत्र, चेन्नई के पद पर नियुक्त किया जाता है।

वी० रामाकृष्णन, अवर सचिव

(औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 02 मार्च 2005

सं० ए-45011/02/2004-870-1-राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड I अधिकारी श्री रामजी सिंह को, जो इस समय औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में अवर सचिव के रूप में कार्य कर रहे हैं, इसी विभाग में तदर्थ आधार पर 23 फरवरी, 2005 की पूर्वाह्न से उप-सचिव (केन्द्रीय सचिवालय सेवा का चयन ग्रेड) के रूप में नियुक्त करते हैं।

उप सचिव (केन्द्रीय सचिवालय सेवा के चयन ग्रेड) के ग्रेड में उक्त अधिकारी की तदर्थ पदोन्नति पूर्णतः तदर्थ आधार पर की गई है और इससे उक्त अधिकारी को उस ग्रेड में अनिश्चितकाल तक बने रहने अथवा नियमित नियुक्ति हेतु चयन सूची में शामिल होने अथवा चयन ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने का अधिकार नहीं मिलेगा। इसके अलावा इस तदर्थ पदोन्नति पर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के आदेश सं० 21/13/2004-सी० एस० I (बी), दिनांक फरवरी, 2005 में निर्धारित शर्तें लागू होंगी।

ज० ज० कौर, अवर सचिव

## दिनांक 15 मार्च 2005

सं० ए-45011/03/2002-व्य-1-कामिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा अपने दिनांक 24 फरवरी, 2005 के का०ज्ञा० सं० 4/7/2003-सीएस I के द्वारा केन्द्रीय सचिवालय सेवा के निम्नलिखित अधिकारी का नाम वर्ष 1996 की केन्द्रीय सचिवालय सेवा (अवर सचिव) की ग्रेड I चयन सूची में शामिल कर दिए जाने के फलस्वरूप, राष्ट्रपति उन्हें उनके नाम के सामने दिए गए श्रेणियों के अनुसार नियमित आधार पर नियुक्त करते हैं :

क्र० सं०	अधिकारी का नाम	का० और प्र० विभाग के दिनांक 24-02-2005 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार के० सं० सेवा के ग्रेड-I में दी गई वरिष्ठता	नियुक्ति को मान ली गई तारीख/नियुक्ति की वास्तविक तारीख	मंत्रालय/विभाग जहाँ पहले कार्यरत थे वर्तमान नियुक्ति
1.	श्री आर० के० बहल	60-ए	01-07-1996 28-09-1998	औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग

ज० ज० कौर, अवर सचिव

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(उर्वरक विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 14 अप्रैल 2005

सं० ए० 32011/1/2004-एच०आर-2-कामिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 17/18 फरवरी, 2005 के कार्यालय ज्ञापन सं० 21/9/2004-सी०एस-1 (भाग) के तहत अनुदेशों के अनुसार, राष्ट्रपति, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के संयुक्त संवर्ग के निम्नलिखित नियमित सहायकों को उनके नाम के सम्मुख दर्शाई गई तारीख सेवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, के लिए उर्वरक विभाग के संयुक्त संवर्ग में तदर्थ आधार पर 6500-200-10500 रुपये के वेतनमान में अनुभाग अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं :-

(1) श्री जे०पी० उनियाल 24-03-2005 (पूर्वाह्न)

(2) श्री आर० के० शर्मा 31-3-2005 (पूर्वाह्न)

2. ये दोनों अधिकारी पद सहित स्थानांतरित होकर रसायन और पेट्रो रसायन विभाग में तैनात किए जाते हैं।

3. इस तदर्थ पदान्तरित से इस ग्रेड में अनिश्चित काल तक बने रहने या नियमित नियुक्ति के लिए चुनिंदा सूची में शामिल किए जाने या अनुभाग अधिकारी ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

ओम प्रकाश, डेस्क अधिकारी (एच०आर०-II)

दिनांक 20 अप्रैल 2005

सं० ए-32011/1/2004-एच०आर०-II-कामिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 17/18 फरवरी, 2005 के कार्या-

लय ज्ञापन सं० 21/9/2004-सी०एस०-I (खंड) द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार राष्ट्रपति, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के संवर्ग की नियमित सहायक सुश्री सीमा अग्रवाल को उर्वरक विभाग तथा रसायन और पेट्रो रसायन विभाग के संयुक्त संवर्ग में र० 6500-200-10,500 के वेतनमान में 22-3-2005 (अपराह्न) से अगले आदेशों तक जो भी पहले हो, तदर्थ आधार पर अनुभाग अधिकारी के पद में नियुक्त करते हैं। सुश्री सीमा अग्रवाल पद सहित स्थानांतरित होकर रसायन और पेट्रो रसायन विभाग में नियुक्त की जाती है।

2. इस तदर्थ पदान्तरित से उन्हें ग्रेड में अनिश्चित काल तक बने रहने या नियमित नियुक्ति के लिए चयन सूची में शामिल होने या अनुभाग अधिकारी ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने का अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

ओम प्रकाश, डेस्क अधिकारी (एच०आर०-II)

कोयला मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 19 अप्रैल 2005

सं० 12/12/2001-ए०एस०ओ० -- राष्ट्रपति द्वारा श्री के० एस० क्रोफा, भा० प्र० से० (अ०म० : 82) को कोयला मंत्रालय में 18400-22400 र० के वेतनमान में संयुक्त सचिव के पद पर 19 अप्रैल, 2005 से 5 वर्ष की अवधि अथवा अगले आदेश, इनमें से जो भी पहले हो, तक नियुक्त किया जाता है।

संजीव मित्तल, निदेशक

नई दिल्ली, दिनांक 20 अप्रैल 2005

सं० सी-20011/1/2001-प्रशासन—कामिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, कामिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 6 अप्रैल, 2005 के आदेश सं० 5/10/2005-सी० एस०-1 के अनुसार अन्तर संवर्ग स्थानांतरण आधार पर संघ लोक सेवा आयोग से कोयला मंत्रालय में स्थानांतरण के परिणामस्वरूप श्री संजय कुमार सिंह को इस मंत्रालय में 15 अप्रैल, 2005 (अपराह्न) से अगले आदेशों तक 6,500-200-10,500/- रु० के वेतनमान में अनुभाग अधिकारी (तदर्थ) के रूप में नियुक्त किया गया है।

पार्वती कौटिया, अवर सचिव

खान मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 11 अप्रैल 2005

सं० 28/1/2003-स्था०—मंत्रालय की अधिसूचना सं० 3/16/98-स्था० दिनांक 14 फरवरी, 2002 का अधि-क्रमण करते हुए, राष्ट्रपति, एस० एन० सिंह को 7 फरवरी 2002 (पूर्वाह्न) से 10,000-325-15,200/- रु० के वेतन-मान में नियमित आधार पर विकास अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं।

टी० एस० भाटिया, अवर सचिव

सं० 28/1/2003-स्था०—इस मंत्रालय की अधिसूचना सं० 3/16/98-स्था० दिनांक 28 मार्च, 2002 का अधि-क्रमण करते हुए, राष्ट्रपति, डॉ० जे० एम० शर्मा को 22 मार्च, 2002 (पूर्वाह्न) से 10,000-325-15,200/- रु० के वेतन-मान में नियमित आधार पर विकास अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं।

टी० एस० भाटिया, अवर सचिव

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 15 अप्रैल 2005

सं० ए० 12026/2/98-डी०/डी० एम० एस० एण्ड पी० एफ० ए०—राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर, डा० जयप्रकाश, लेक्चरर (फार्माकोलॉजी) मीरा बाई पॉलीटेक्नीक, महारानी बाग दिल्ली को सी० आई० पी० एल०, गाजियाबाद में एस० एस० ओ० ग्रेड-I (फार्माकोलॉजी) के पद का कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 10,000-325-15,200/- रुपये के वेतनमान में स्थाई आधार पर बरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, ग्रेड-I (फार्माकोलॉजी) के पद पर तैनात करते हैं।

नीता केजरीवाल, अवर सचिव

कृषि मंत्रालय

(कृषि एवं सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 15 अप्रैल 2005

सं० 12022/4/2005-स्था०-I राष्ट्रपति, केंद्रीय सह-कारिता सेवा (सी० एस० एस०) के निम्नलिखित नियमित अनुभाग अधिकारियों को कृषि मंत्रालय (कृषि एवं सह-कारिता विभाग) में आगामी आदेश होने तक उनके नाम के सामने उल्लिखित तारीखों से तदर्थ आधार पर अवर सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं :-

1. श्री एस० के० गौतम 28-2-2005 (पूर्वाह्न) से
2. श्री छोटे लाल 1-3-2005 (पूर्वाह्न) से

2. इन अधिकारियों की तदर्थ नियुक्ति से उन्हें ग्रेड-I में बरिष्ठता का दावा करने अथवा नियमित नियुक्ति के लिए चयन सूची में शामिल करने अथवा अतिरिक्त काल तक ग्रेड में बने रहने का कोई अधिकार नहीं होगा।

के० डी० उप्रेती, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 20 अप्रैल 2005

सं० 19011/418/2005-स्था०-5—राष्ट्रपति, उप निदेशक (सहकारिता) श्री पी० तन्मत को कृषि एवं सह-कारिता विभाग में दिनांक 11-4-2005 (पूर्वाह्न) से छह महीनों की अवधि के लिए अथवा आगामी आदेश होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, 12,000-16,500 रु० के वेतन-मान में पूर्णतया तदर्थ आधार पर निदेशक (सहकारिता) के रूप में नियुक्त करते हैं।

2. उपर्युक्त नियुक्ति पूर्णतया तदर्थ आधार पर है और निदेशक (सहकारिता) के ग्रेड में बरिष्ठता का दावा करने का उन्हें कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

के० डी० उप्रेती, अवर सचिव

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(महिला एवं बाल विकास विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 5 अप्रैल 2005

सं० 3-5/2004-प्रशासन-I—दिनांक 23-2-2005 के कामिक एवं प्रशिक्षण विभाग के आदेश संख्या 21/13/2004-सी एस (बी) के अनुसरण में महामहिम राष्ट्रपति जी श्री आर० के० ओझा को दिनांक 23-2-2005 के पूर्वाह्न से महिला एवं बाल विकास विभाग में तदर्थ आधार पर उप सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

आर० एस० शर्मा, अवर सचिव

## सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 31 मार्च 2005

सं० ए-32014/1/2004-स्था० (भाग)—राष्ट्रपति, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 17-2-2005 के कार्यालय ज्ञापन सं० 21/9/2004-सी० एस० आई० (पार्ट) के अनुसरण में, कृषि और कोपरेसन के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के मूल सहायक श्रीमती किशोरीना कुजूर को 30 मार्च, 2005 के पूर्वाह्न से विशुद्धतः तदर्थ आधार पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के अनुभाग अधिकारी के ग्रेड में नियुक्त करते हैं।

2. यह तदर्थ पदोन्नति पूरी तरह एक कामचलाऊ उपाय के रूप में की गई है और इस ग्रेड में अनिश्चितकाल तक जारी रहने अथवा अनुभाग अधिकारी के ग्रेड में नियमित नियुक्ति के लिए चयन सूची में शामिल करने हेतु अथवा इस ग्रेड में ज्येष्ठता का दावा करने के लिए उन्हें कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी।

एल० सी० मेहरा, अवर सचिव

सं० ए-32014/1/2004-स्था० (भाग)—राष्ट्रपति, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 17-2-2005 के कार्यालय ज्ञापन सं० 21/9/2004-सी० एस० आई० (पार्ट) के अनुसरण में, वित्त मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के मूल सहायक श्री वी० श्रीधर को 22 मार्च, 2005 के पूर्वाह्न से विशुद्धतः तदर्थ आधार पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के अनुभाग अधिकारी के ग्रेड में नियुक्त करते हैं।

2. यह तदर्थ पदोन्नति पूरी तरह एक कामचलाऊ उपाय के रूप में की गई है और इस ग्रेड में अनिश्चितकाल तक जारी रहने अथवा अनुभाग अधिकारी के ग्रेड में नियमित नियुक्ति के लिए चयन सूची में शामिल करने हेतु अथवा इस ग्रेड में ज्येष्ठता का दावा करने के लिए उन्हें कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी।

एल० सी० मेहरा, अवर सचिव

सं० ए-32014/1/2004-स्था० (भाग)—राष्ट्रपति, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 17-2-2005 के

कार्यालय ज्ञापन सं० 21/9/2004-सी० एस० आई० (पार्ट) के अनुसरण में, वित्त मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के मूल सहायक श्री रमेश चन्द्र ध्यानी को 22 मार्च, 2005 के पूर्वाह्न से विशुद्धतः तदर्थ आधार पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के अनुभाग अधिकारी के ग्रेड में नियुक्त करते हैं।

2. यह तदर्थ पदोन्नति पूरी तरह एक कामचलाऊ उपाय के रूप में की गई है और इस ग्रेड में अनिश्चितकाल तक जारी रहने अथवा अनुभाग अधिकारी के ग्रेड में नियमित नियुक्ति के लिए चयन सूची में शामिल करने हेतु अथवा इस ग्रेड में ज्येष्ठता का दावा करने के लिए उन्हें कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी।

एल० सी० मेहरा, अवर सचिव

दिनांक 5 अप्रैल, 2005

सं० ए-32014/1/2004-स्था० (भाग)—राष्ट्रपति, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 17-2-2005 के कार्यालय ज्ञापन सं० 21/9/2004-सी० एस० आई० (पार्ट) के अनुसरण में, वाणिज्य मंत्रालय (आपूर्ति) के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के मूल सहायक श्री ए० एस० कंवर को 1 अप्रैल 2005 के पूर्वाह्न से विशुद्धतः तदर्थ आधार पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के अनुभाग अधिकारी के ग्रेड में नियुक्त करते हैं।

2. यह तदर्थ पदोन्नति पूरी तरह एक कामचलाऊ उपाय के रूप में की गई है और इस ग्रेड में अनिश्चितकाल तक जारी रहने अथवा अनुभाग अधिकारी के ग्रेड में नियमित नियुक्ति के लिए चयन सूची में शामिल करने हेतु अथवा इस ग्रेड में ज्येष्ठता का दावा करने के लिए उन्हें कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी।

एल० सी० मेहरा, अवर सचिव

सं० ए-32014/1/2004-स्था० (भाग)—राष्ट्रपति, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 17-2-2005 के कार्यालय ज्ञापन सं० 21-9-2004-सी० एस० आई० (पार्ट) के अनुसरण में, वाणिज्य मंत्रालय (आपूर्ति) के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के मूल सहायक श्री राकेश महर्षि को 1 अप्रैल, 2005 के पूर्वाह्न

से विशुद्धता: तदर्थ आधार पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के अनुभाग अधिकारी के ग्रेड में नियुक्त करते हैं।

2. यह तदर्थ पदोन्नति पूरी तरह एक कामचलाऊ उपाय के रूप में की गई है और इस ग्रेड में अनिश्चितकाल तक जारी रहने अथवा अनुभाग अधिकारी के ग्रेड में नियमित नियुक्ति के लिए चयन सूची में शामिल करने हेतु अथवा इस ग्रेड में ज्येष्ठता का दावा करने के लिए उन्हें कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी।

एल० सी० मेहरा, अवर सचिव

सं० ए-32014/1/2004-स्था० (भाग) —राष्ट्रपति, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 17-2-2005 के कार्यालय ज्ञापन सं० 21/9/2004-सी० एस० आई० (सर्ट) के अनुसरण में, वाणिज्य मंत्रालय (आपूर्ति) के केन्द्रीय सचिवालय, सेवा संवर्ग के मूल सहायक श्री सोमेन चौधुरी को 1 अप्रैल, 2005 के पूर्वाह्न से विशुद्धतः तदर्थ आधार पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के अनुभाग अधिकारी के ग्रेड में नियुक्त करते हैं।

2. यह तदर्थ पदोन्नति पूरी तरह एक कामचलाऊ उपाय के रूप में की गई है और इस ग्रेड में अनिश्चित काल तक जारी रहने अथवा अनुभाग अधिकारी के ग्रेड में नियमित नियुक्ति के लिए चयन सूची में शामिल करने हेतु अथवा इस ग्रेड में ज्येष्ठता का दावा करने के लिए उन्हें कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी।

एल० सी० मेहरा, अवर सचिव

सं० ए-32014/1/2004-स्था० (भाग) —राष्ट्रपति, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 17-2-2005 के कार्यालय ज्ञापन सं० 21/9/2004-सी० एस० आई० (पार्ट) के अनुसरण में, वाणिज्य मंत्रालय (आपूर्ति) के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के मूल सहायक श्री डी० आर० सैनी को 1 अप्रैल 2005 के पूर्वाह्न से विशुद्धतः तदर्थ आधार पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के अनुभाग अधिकारी के ग्रेड में नियुक्त करते हैं।

2. यह तदर्थ पदोन्नति पूरी तरह एक कामचलाऊ उपाय के रूप में की गई है और इस ग्रेड में अनिश्चितकाल तक जारी रहने अथवा अनुभाग अधिकारी के ग्रेड में नियमित नियुक्ति के लिए चयन सूची में शामिल करने हेतु अथवा इस ग्रेड

2—52GI/2005

में ज्येष्ठता का दावा करने के लिए उन्हें कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी।

एल० सी० मेहरा, अवर सचिव

#### संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(सूचना प्रौद्योगिकी विभाग)

नई दिल्ली-110003, दिनांक 20 अप्रैल 2005

सं० 4(56)/74-कार्मिक-I (खण्ड III) —तक्षम प्रावि-  
कारी द्वारा केन्द्रीय सिविल सेवा (वैधानिक) नियमावली, 1972  
के नियम 48-ए के अंतर्गत सरकारी सेवा से स्वैच्छिक सेवा  
निवृत्ति का नोटिस स्वीकार कर लिए जाने पर सूचना  
प्रौद्योगिकी विभाग में वैज्ञानिक-जी, श्री राजकुमार अरोड़ा  
(कर्मचारी कोड सं० 63) को दिनांक 21-4-2005 के  
पूर्वाह्न से सेवा निवृत्ति की अनुमति दी जाती है।

राजकुमार मनचन्द्रा, उप निदेशक

(दूरसंचार विभाग)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 20 अप्रैल 2005

सं० 400-52/2002-एसटीजे-III —भारत संचार निगम  
लिमिटेड के कर्नाटक दूरसंचार सकल में महा प्रबंधक के पद  
पर कार्यरत भारतीय दूरसंचार सेवा समूह "क" के वरिष्ठ प्रशा-  
सनिक ग्रेड के अधिकारी श्री ए० के० श्रीवास्तव (स्टाफ सं०  
482) का दिनांक 24-8-2004 को निधन हो गया है।

अमरजीत सिंह, अवर सचिव

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 13 अप्रैल 2005

सं० ई(ओ)-III/2005/आरएन/5 —रेल विकास निगम  
लि० में स्थायी समाहन होने के परिणामस्वरूप, श्री हरीश चन्द्र,  
भारतीय रेल लेबा सेवा ने, 11-3-2005 से रेल सेवा से  
त्यागपत्र दे दिया है।

एम० के० अग्रवाल, सचिव, रेलवे बोर्ड एवं पदेन अपर सचिव

दिनांक 21 अप्रैल 2005

सं० ई(ओ)-III/2005/आरएन/8 —राइट्स में स्थायी  
समाहन होने के परिणामस्वरूप श्री राहुल झा, भारतीय रेल  
कार्मिक सेवा ने, 24-3-2005 से रेल सेवा से त्यागपत्र दे  
दिया है।

एम० के० अग्रवाल, सचिव रेलवे बोर्ड एवं पदेन अपर सचिव

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

(सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 12 अप्रैल 2005

सं० ए-38014/2/2004-स्था०-I--पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में अनुभाग अधिकारी के पद पर कार्यरत केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारी श्री मोहम्मद इब्राहिम दिनांक 31-3-2005 (अपराह्न) को सेवानिवृत्त हो गए हैं।

डा० आर० के० अग्रवाल, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 13 अप्रैल 2005

सं० ए-32013/6/2004-स्था०-II--राष्ट्रपति, पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग में श्री बी० वेलायुधम, मुख्य इंजीनियर की अपर महानिदेशक के पद पर तदर्थ नियुक्ति को इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के अधीन दिनांक 26-1-2005 के बाद अगले 6 महीने की अवधि अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, बढ़ाते हैं।

बी० ना० मिश्रा, अवर सचिव

विद्युत मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 20 अप्रैल 2005

सं० 9/2005 (मि०सं०ए-38012/1/2005-प्रशा० एक) अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने पर, श्री विश्व बंधु जोकि केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के केन्द्रीय विद्युत इंजीनियरी (समूह-क) सेवा में उप निदेशक के पद पर कार्यरत थे। भारत सरकार की सेवा से 31 मार्च, 2005 के अपराह्न से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

आर० सी० अरोड़ा, अवर सचिव

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 08 अप्रैल 2005

सं० पी० एफ०/869/भा० सू० से०--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने पर, भारतीय सूचना सेवा समूह 'क' के कनिष्ठ प्रशासक श्रेणी के अधिकारी श्री एम० वाई० सिद्दीकी, दिनांक 28 फरवरी, 2005 को अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

श्री एम० वाई० सिद्दीकी ने उसी तारीख से उपप्रधान सूचना अधिकारी, पत्र सूचना कार्यालय, नई दिल्ली के पद का कार्यभार त्याग दिया है।

विनय कुमार सेखड़ी, अवर सचिव

## PRIME MINISTER'S OFFICE

New Delhi-110 011, the 31st March 2005

No. A. 11013/45/1996-PMA—Consequent upon the demise of Shri P. V. Narasimha Rao, former Prime Minister on 23rd December, 2004, Shri R. K. Khandekar, a re-employed pensioner appointed as Private Secretary to the former Prime Minister will stand relieved of his duties on the personal staff of former Prime Minister with effect from the afternoon of 31st March, 2005.

P. K. ROY, Under Secy.

No. A. 22012/01/2005-PMA—Consequent upon completion of tenure on Central Deputation, Smt. Renuka Kumar, IAS (UP : 87) has relinquished the charge of the post of Director in the Prime Minister's Office with effect from the afternoon of 31st March, 2005.

P. K. ROY, Under Secy.

No. A. 11013/45/1996-PMA—Consequent upon the demise of Shri P. V. Narasimha Rao, former Prime Minister on 23rd December, 2004, Shri K. R. Pandey, a re-employed pensioner appointed as Additional Private Secretary to the former Prime Minister will stand relieved of his duties on the personal staff of former Prime Minister with effect from the afternoon of 31st March, 2005.

P. K. ROY, Under Secy.

No. A. 11013/45/1996-PMA—Consequent upon the demise of Shri P. V. Narasimha Rao, former Prime Minister on 23rd December, 2004, Shri Chaitanya Sharma, UDC of CSCS Cadre of Ministry of HRD and appointed as Assistant Private Secretary to the former Prime Minister will stand relieved of his duties on the personal staff of former Prime Minister with effect from the afternoon of 31st March, 2005.

P. K. ROY, Under Secy.

## LOK SABHA SECRETARIAT

New Delhi-110 001, the 28th September 2004

No. F. 15/29/2004/GN-5264/AN-I—Shri Ram Lakhan Shukla is appointed as Private Secretary in the scale of pay of Rs. 8000-275-13500 on the personal staff of Deputy Leader of Samajwadi Party in Lok Sabha (Shri Ramji Lal Suman) with effect from 16th August, 2004 until further orders.

2. His appointment as Private Secretary will be on tenure basis and during the pleasure of and co-terminus with the term of the present Deputy Leader of the Samajwadi Party in the Lok Sabha.

ANAND B. KULKARNI, Jt. Secy.

The 21st March 2005

No. PF-2024(3)/GN-5417/AN-I/2005—Shri N. C. Gupta, Under Secretary in the pay scale of Rs. 12000-375-16500 is relieved of his duties in this Secretariat w.e.f. the afternoon of 21st March, 2005 and thereafter his services are placed at the disposal of the Ministry of Development of North Eastern Region (DONER) for his appointment as Officer on Special Duty in the pay scale of Rs. 12000-375-16500 in the personal establishment of Minister of Tribal Affairs and DONER on deputation basis.

ANAND B. KULKARNI, Jt. Secy.

No. PF. 2925(3)/GN-5426/AN-I/2005—On reversion from deputation to Ministry of Home Affairs, New Delhi, Shri Srinivasulu Gunda has resumed duty in this Secretariat as Legislative/Committee/Executive/Protocol Officer in the scale of pay of Rs. 8000-275-13500 with effect from 1st April, 2005 (F.N.).

ANAND B. KULKARNI, Jt. Secy.

The 15th April 2005

No. PF. 1367(3)/GN-5428/AN-I/2005—The Speaker is pleased to appoint Shri R. K. Bajaj, Under Secretary in the scale of pay of Rs. 12000—16500 to the grade of Deputy Secretary in the scale of pay of Rs. 12750-375-16500 on ad hoc basis with effect from 4th March, 2005 until further orders.

ANAND B. KULKARNI, Jt. Secy.

No. PF. 2501(3)/GN-5429/AN-I/2005—The Speaker is pleased to appoint Shri J. V. G. Reddy, Assistant Director in the scale of pay of Rs. 10000—15200 to the grade of Under Secretary in the scale of pay of Rs. 12000-375-16500 on ad hoc basis with effect from 4th March, 2005 until further orders.

ANAND B. KULKARNI, Jt. Secy.

No. PF. 2925 (3)/GN-5430/AN-I/2005—The Speaker is pleased to appoint Shri Srinivasulu Gunda, Executive/Legislative/Committee/Protocol Officer in the scale of pay of Rs. 8000—13500 to the grade of Assistant Director in the scale of pay of Rs. 10000-325-15200 with effect from 1st April, 2005 until further orders.

2. Shri Srinivasulu Gunda will rank senior to Shri Rajesh Ranjan Kumar but junior to Shri Harish Chander-II in the grade of Assistant Director. However, his inter-se-seniority in the grade of Assistant Director will be regulated in terms of R&CS Order No. PDA-1076/2003 dated 20.12.2003.

ANAND B. KULKARNI, Jt. Secy.

**PLANNING COMMISSION**

New Delhi, the 11th April 2005

No. A. 12025/2/2004-Adm. II—On completing one year of her ad hoc appointment as Senior Research Officer in the Planning Commission, Smt. Renu Lal, is reverted to her parent organization i.e. IAMR with effect from the afternoon of 11.04.2005.

K. K. CHHABRA, Under Secy.

The 15th April 2005

No. A. 12025/2/2004-Adm. II—In continuation of Planning Commission's Notification of even number dated 30th December, 2004, the term of ad hoc deputation of Smt. Renu Lal, Senior Research Officer, IAMR, as Senior Research Officer in the Planning Commission is extended ex-post facto for the period from 1.4.2005 to 11.04.2005.

K. K. CHHABRA, Under Secy.

**MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION**

New Delhi, the 9th March 2005

No. 12018/1/2005-ISS—On attaining the age of superannuating, Shri Kuldeep Chand Sood, a JTS level officer of Indian Statistical Service, posted as Assistant Director in Labour Bureau in the Ministry of Labour and Employment retired from service w.e.f. afternoon of 28.2.2005.

BHARATI DATTA, Under Secy.

**MINISTRY OF LAW AND JUSTICE**

(DEPARTMENT OF JUSTICE)

New Delhi-110 011, the 15th April 2005

No. K. 13022/1/2005-U. S.-I—In exercise of the powers conferred by Clause (1) of Article 217 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint Shri Justice Rajeev Gupta, Judge of the Madhya Pradesh High Court, to be the Chief Justice of the Kerala High Court with effect from the date he assumes charge of his office.

Dr. P. K. SETH, Jt. Secy.

**MINISTRY OF HOME AFFAIRS**

New Delhi-110 001, the 19th April 2005

No. 14016/22/2000-UTS.II—In terms of Clause (a) of Sub-rule (1) of Rule 25 of the Delhi and Andaman & Nicobar Islands Police Service Rules, 1971, Sh. Sewak Singh, the then Inspector of Delhi Police is appointed to Grade-II of the Delhi and Andaman & Nicobar Islands Police Service on officiating basis with effect from 6.11.1972. Consequently, the name of Sh. Sewak Singh will appear at Sl. No. 122-A below the name of Smt. M. D. Butta and above the name of Sh. Chiranjiv Lal, in stead of at Sl. No. 232, in the seniority list of DANIPS officers published by

the Ministry of Home Affairs vide order No. 14040/7/96-UTS.II dated 14th May, 2002.

N. J. THOMAS, Under Secy.

**(DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE)**

New Delhi, the 21st April 2005

No. 12013/11/2001-OL(Impl.-I)—The President is pleased to appoint Shri R. S. Rawat as Asstt. Director (Implementation) in the Regional Implementation Office under Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, on deputation basis with effect from 27.3.2005 (F. N.) for a period of three years or till further orders whichever is earlier.

SMT. SAROJ JAISIA, Under Secy.

**MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES & PENSIONS****(DEPARTMENT OF PERSONNEL & TRAINING)**

New Delhi, the 20th April 2005

No. 13017/55/2004-AIS(I)—In exercise of the powers conferred by Rule 6(1) of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954 and with the concurrence of the Government of Bihar and the Ministry of Home Affairs as the cadre controlling authority for the AGMUT (Arunachal Pradesh), the Central Government hereby accords approval for deputation of Shri P. K. Pattanaik, IAS (RR : 80) from Bihar to AGMUT (Arunachal Pradesh) Cadre for a period of two years, with effect from the date of his reporting for duty in the AGMUT Cadre.

K. K. SHARMA, Desk Officer

No. 13017/44/2001-AIS (I)—In exercise of the powers conferred by Rule 6(1) of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954, and with the concurrence of the Government of Punjab and the Ministry of Home Affairs as a Cadre controlling authority of AGMUT, the Central Govt. hereby regularise the period of over stayal of Shri Karan A. Singh, IAS (RR : 84) on inter Cadre deputation from Punjab to AGMUT from 4.7.2004 to 6.11.2004.

K. K. SHARMA, Desk Officer

No. 13017/44/2003-AIS(I)—In exercise of the powers conferred by Rule 6(1) of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954 and with the concurrence of the Governments of Manipur-Tripura and Uttaranchal, the Central Government hereby accords approval for inter Cadre deputation of Smt. Nidhi Mani Tripathi, IAS (RR : 2001) from IAS Cadre of Manipur-Tripura to the IAS Cadre of Uttaranchal for a period of three years with effect from the date of her reporting for duty in the State of Uttaranchal.

K. K. SHARMA, Desk Officer



The 21st April 2005

No. 13017/13/2003-AIS(I)—In exercise of the powers conferred by Rule 6(1) of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954 and with the concurrence of the Government of Haryana and the Ministry of Home Affairs as the cadre controlling authority for the AGMUT the Central Government hereby accords approval for extension of deputation of Shri Arun Kumar, IAS (HY : 89) from Haryana to AGMUT Cadre for a period of one year beyond 29.5.2005.

K. K. SHARMA, Desk Officer

The 26th April 2005

No. 13017/4/2005-AIS(I)—In exercise of the powers conferred by sub-rule (2) of Rule 5 of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954 and with the concurrence of the Governments of Manipur-Tripura and West Bengal, the Central Government hereby transfers Smt. Archana, IAS (RR : MT : 2002) from IAS Cadre of Manipur-Tripura to the IAS Cadre of West Bengal with immediate effect.

K. K. SHARMA, Desk Officer

New Delhi, the 20th April 2005

No. 14015/02/2004-AIS(I)-B—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of Rule 8 of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954 read with sub-regulation (1) of Regulation 9 of the Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955 and Rule 3 of the Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to appoint Sh. C. Thanchhuma (ST), a member of the State Civil Service of the Mizoram segment of the AGMUT Cadre to the Indian Administrative Service against the vacancy of the year 2004 on probation with immediate effect until further orders and to allocate him to the Mizoram segment of the AGMUT Cadre, under sub-rule (1) of Rule 5 of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954.

JAGAN LAL, Under Secy.

No. 14015/02/2004-AIS(I)-A—In terms of the provisions contained in sub-regulation (3) of Regulation 7 of the Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, the Union Public Service Commission has approved the Select List of 2004 for Mizoram segment of the joint AGMUT Cadre, containing the name of Sh. C. Thanchhuma (ST) (Date of Birth : 01.03.1951), a member of the State Civil Service of the Mizoram segment of the AGMUT Cadre, prepared by the Selection Committee in its meeting held on 15th December, 2004, towards filling up 1 (one) vacancy during 2004 in the Indian Administrative Service.

JAGAN LAL, Under Secy.

The 21st April 2005

No. 14015/14/2004-AIS(I)-B—In exercise of the powers conferred by sub-rule (2) of Rule 8 of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954 read with sub-regulation (1) of Regulation 8 of the Indian Administrative Service (Appointment by Selection) Regulations, 1997 and Rule 3 of the Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to appoint Sh. S. S. Deshmukh, non-State Civil Service Officer of Maharashtra to the Indian Administrative Service on probation with immediate effect until further orders and to allocate him to the Maharashtra Cadre, under sub-rule (1) of Rule 5 of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954.

JAGAN LAL, Under Secy.

No. 14015/14/2004-AIS(I)-A—In terms of the provisions contained in sub-regulation (1) of Regulation 7 of the Indian Administrative Service (Appointment by Selection) Regulations, 1997, the Union Public Service Commission has approved the 2004 Select List containing the name of Sh. S. S. Deshmukh [D.O.B. 11.09.1958] member of the non-State Civil Service of the State of Maharashtra prepared by the Selection Committee in its meetings held on 27th December, 2004, towards filling up one (01) existing vacancy in the Maharashtra cadre of Indian Administrative Service, during 2004.

JAGAN LAL, Under Secy.

New Delhi, the 21st April 2005

No. A. 32014/1/2005-Ad. I—The President is pleased to appoint the following Assistants of the CSS borne on the strength of M. H. A. Cadre as Section Officers on ad hoc basis in the Department of Personnel & Training in the pay scale of Rs. 6500-200-10500 with effect from the date mentioned against each and until further orders subject to the conditions laid down in DOPT's OM No. 21/9/2004-CS (Pt.) dated 17.2.2005.

Sl. No.	Name	Date from which appointed
	S/Shri	
1.	Valerian Tirkey	29.03.2005 (FN)
2.	Surender Kumar	29.03.2005 (AN)

N. K. PUSHPAKARAN, Dy. Secy.

## MINISTRY OF FINANCE

## (DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS)

New Delhi, the 24th March 2005

F. No. 3/25/04-Cy. III—The President is pleased to appoint Shri M. N. Katare, Assistant Works Manager, in the

combined Cadre of India Security Press/Currency Note Press, Nashik Road as Deputy Works Manager, in the same cadre in the pay scale of Rs. 10000-325-15200 (Group 'A' Gazetted) on regular basis with effect from the forenoon of 11.3.2005 and until further orders.

A. K. KHANNA, Under Secy.

New Delhi, the 15th April 2005

No. 2/3/2003-Coin. I—The President is pleased to appoint Shri N. K. Chaudhary, Joint General Manager, Ordnance Factory, Badmal, as General Manager in India Government Mints in the scale of pay of Rs. 18,400—22,400/- on deputation basis for a period of three years with effect from 01.01.2005 (F. N.) or until further orders, whichever is earlier.

APARAJITA CHOWDHURY, Dy. Secy.

New Delhi, the 15th April 2005

No. PFE (185)-Ad. II/Ad. I.A—The President is pleased to accept the request of Shri V. K. Vasdev, Economic Officer in Ministry of Finance, Department of Economic Affairs for his voluntary retirement from government service under rule 48 of Central Civil Service (Pension) rules w.e.f. 9.4.2005 (FN).

NEELAM VOHRA, Under Secy.

#### (DEPARTMENT OF DISINVESTMENT)

New Delhi-110 003, the 25th April 2005

No. 9/5/2005- Admn.—Sh. A. K. Jain, IAS (UP : 70), has assumed charge of the post of Secretary to the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Disinvestment) with effect from the forenoon of 25th April, 2005.

S. K. BANDYOPADHYAY, Dy. Secy.

#### MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

##### (DEPARTMENT OF COMMERCE)

New Delhi, the 11th April 2005

No. A. 5(3)/2004-EPZ—The President is pleased to appoint Shri P. V. Jaganmohan, IAS (UP : 87) as Joint Development Commissioner, Madras Special Economic Zone, Chennai under the Ministry of Commerce and Industry, Department of Commerce in the pay scale of Rs. 15,100—18,300 for a period of 5 years with effect from 30.3.2005 (Afternoon), or until further orders.

V. RAMAKRISHNAN, Under Secy.

#### (DEPARTMENT OF INDUSTRIAL POLICY AND PROMOTION)

New Delhi, the 2nd March 2005

No. A-45011/02/2004-E. I—The President is pleased to appoint Shri Ramjee Singh, a Grade I officer of CSS and presently working as Under Secretary in the Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce & Industry, as Deputy Secretary (Selection Grade of CSS), on ad hoc basis, in the same Department with effect from the forenoon of 23rd February, 2005.

The ad hoc promotion of the officer to the grade of Deputy Secretary (Selection Grade of CSS) is purely on ad hoc basis and shall not confer any right on the officer to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Selection Grade. The ad hoc promotion is further subject to the conditions laid down in Department of Personnel & Training's order No. 21/13/2004-CS. I (B) dated 23rd February, 2005.

J. J. KAUR, Under Secy.

The 15th March 2005

No. A-45011/03/2002-E.I—Consequent on the inclusion of his name in the Select List of Grade I of CSS (Under Secretary) for the year 1996 by the Department of Personnel and Training vide their O. M. No. 4/7/2003-CSI dated the 24th February, 2005, the President is pleased to appoint the following officer of the Central Secretariat Service to Grade I of CSS (Under Secretary) on a regular basis as per details shown against his name :—

Sl. No.	Name of the Officer	Seniority assigned in Grade I of CSS As per DOPT O. M. dated 24.02.05	Deemed date of <u>appointment</u> Actual date of appointment	Ministry/ Deptt. where working <u>earlier</u> present posting
1.	Shri R. K. Bahal	(60-A)	01.07.1996 28.09.1998	Deptt. of IPP Deptt. of IPP

J. J. KAUR, Under Secy.

#### MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS

##### (DEPARTMENT OF FERTILIZERS)

New Delhi, the 11th April 2005

No. A-32011/1/2004-HR-II—In terms of instructions issued by DoPT vide their OM No. 21.9.2004-CS-I (part) dated 17th/18th February, 2005, the President is pleased to appoint the under-mentioned regular Assistants borne on the combined cadre of Ministry of Information & Broadcasting, as Section Officers in the pay scale of Rs. 6500-200-10500/- on ad hoc basis on the combined cadre of Department of Fertilizers w.e.f. the date indicated against each or until further orders, whichever is earlier :—

(i) Shri J. P. Uniyal 24.03.2005 (F/N)

(ii) Shri R. K. Sharma 31.03.2005 (F/N)

2. Both these officials are transferred and posted in the Department of Chemicals & Petrochemicals alongwith the posts.

3. This ad hoc promotion shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the select list for the regular appointment or to claim seniority in the 'Section Officers Grade'.

OM PARKASH, Desk Officer (HR-II)

The 20th April 2005

No. A-32011/1/2004-HR-II.—In terms of instructions issued by DoPT vide their OM No. 21/9/2004-CS-I (pt) dated 17th/18th February, 2005 the President is pleased to appoint Ms. Seema Aggarwal, a regular Assistant borne on the cadre of Ministry of Information & Broadcasting, as Section Officer in the pay scale of Rs. 6500-200-10500/- on ad hoc basis in the combined cadre of Department of Fertilizers and Department of Chemicals & Petrochemicals w.e.f. 22.03.2005 (A/N) or until further orders whichever is earlier.

Ms. Seema Aggarwal stands transferred and posted in the Department of Chemicals & Petrochemicals alongwith the post.

2. This ad hoc promotion shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for the regular appointment or to claim seniority in the Section Officers Grade.

OM PARKASH, Desk Officer (HR-II)

#### MINISTRY OF COAL

New Delhi, the 19th April 2005

No. 12/12/2001-ASO.—The President is pleased to appoint Shri K. S. Kropka, IAS (AM : 82), as Joint Secretary to the Govt. of India in the Ministry of Coal in the scale of pay of Rs. 18400—22400/-, for a period of 5 years with effect from 19.4.2005 or until further orders, whichever is earlier.

SANJIV MITTAL, Director

New Delhi, the 26th April 2005

No. C-20011/1/2001-Admn.—Consequent upon his transfer from Union Public Service Commission to Ministry of Coal on inter cadre transfer basis vide Ministry of Personnel, PG and Pensions, Department of Personnel & Training's Order No. 5/10/2005-CS. 1, dated 6th April, 2005, Shri Sanjay Kumar Singh has been appointed as Section Officer (Ad hoc) in the Ministry of Coal w.e.f. 15th April, 2005 (AN) until further orders.

Smt. PARVATI KAUTIA, Under Secy.

#### MINISTRY OF MINES

New Delhi, the 11th April 2005

No. 28/2/2003-Estt.—In supersession of this Ministry's Notification No. 3/16/98-Estt. dated 14th February 2002, the President is pleased to appoint Shri S. N. Singh as Development Officer on regular basis in the scale of pay of Rs. 10,000-325-15,200/- with effect from 7th February 2002 (F/N).

T.S. BHATIA, Under Secy.

No. 28/2/2003-Estt.—In supersession of this Ministry's Notification No. 3/16/98-Estt. dated 28th March 2002, the President is pleased to appoint Dr. J. M. Sharma as Development Officer on regular basis in the scale of pay of Rs. 10,000-325-15,200/- with effect from 22nd March, 2002 (F/N).

T.S. BHATIA, Under Secy.

#### MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi, the 15th April 2005

No. A. 12026/2/98-D/DMS & PFA.—On the recommendation of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Jai Prakash, Lecturer (Pharmacology), Meera Bai Polytechnic, Maharani Bagh, Delhi to the post of Senior Scientific Officer, Grade-I (Pharmacology) in the pay scale of Rs. 10,000-325-15,200/- on permanent basis from the date of assumption of charge of the post of SSO, Grade I (Pharmacology), CIPL, Ghaziabad.

NITA KEJREWAL, Under Secy.

#### MINISTRY OF AGRICULTURE

(DEPARTMENT OF AGRICULTURE & COOPERATION)

New Delhi, the 15th April 2005

No. 12022/4/2005-E-I.—The President is pleased to appoint the following regular Section Officers of Central Secretariat Service (CSS) as Under Secretary in the Ministry of Agriculture (Department of Agriculture & Cooperation) on ad hoc basis with effect from the dates mentioned against their names, until further orders :—

	w.e.f.
1. Shri S. K. Gautam	28.2.2005 (F. N.)
2. Shri Chhotey Lal	1.3.2005 (F. N.)

2. The ad hoc appointment of these officers shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Grade I.

K. D. UPRETI, Under Secy.

The 20th April 2005

No. 19011/418/2005-E. V.—The President is pleased to appoint Shri P. Sampath, Deputy Director (Cooperation) as Director (Cooperation) in the pay scale of Rs. 12000—16500/- in the Department of Agriculture & Cooperation purely on ad hoc basis with effect from 11.4.2005 (FN), for a period of six months or until further orders, whichever is earlier.

2. The above appointment is purely on ad hoc basis and will not confer any right to claim seniority in the grade of Director (Cooperation).

K. D. UPRETI, Under Secy.

#### MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

##### (DEPARTMENT OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT)

New Delhi, the 5th April 2005

F. No. 3-5/2004-Admn.—The President is pleased to appoint Shri R. K. Ojha as Deputy Secretary on ad hoc basis in the Department of Women and Child Development with effect from forenoon of 23.2.2005 in pursuance of Department of Personnel and Training's Order No. 21/13/2004-CS. I(B) dated 23.2.2005.

R. S. SHARMA, Under Secy.

#### MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE & EMPOWERMENT

New Delhi-110 001, the 31st March 2005

No. A-32014/1/2004-Estt. (Pt.).—In pursuance of Department of Personnel and Training's OM No. 21/9/2004-CS. I (Pt.) dated 17.02.2005, the President is pleased to appoint Smt. Christina Kujur, a substantive Assistant of the CSS cadre of the Department of Agriculture & Cooperation, to the Section Officers' Grade of Central Secretariat Service cadre of the Ministry of Social Justice & Empowerment on purely ad hoc basis w.e.f. forenoon of 30th March 2005.

2. This ad hoc promotion is made purely as a stopgap measure and shall not confer any right to continue in the Grade indefinitely or for inclusion in the Select List for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Section Officers' Grade.

L. C. MAHRRA, Under Secy.

No. A-32014/1/2004-Estt. (Pt.).—In pursuance of Department of Personnel and Training's OM No. 21/9/2004-CS. I (Pt.) dated 17.02.2005, the President is pleased to appoint V. Sridhar, a substantive Assistant of the CSS cadre of the Ministry of Finance, to the Section Officers' Grade of Central Secretariat Service cadre of the Ministry of Social Justice & Empowerment on purely ad hoc basis w.e.f. forenoon of 22nd March 2005.

2. This ad hoc promotion is made purely as a stopgap measure and shall not confer any right to continue in the

Grade indefinitely or for inclusion in the Select List for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Section Officers' Grade.

L. C. MAHRRA, Under Secy.

No. A-32014/1/2004-Estt. (Pt.).—In pursuance of Department of Personnel and Training's OM No. 21/9/2004-CS. I (Pt.) dated 17.02.2005, the President is pleased to appoint Shri Ramesh Chander Dhyani, a substantive Assistant of the CSS cadre of the Ministry of Finance, to the Section Officers' Grade of Central Secretariat Service cadre of the Ministry of Social Justice & Empowerment on purely ad hoc basis w.e.f. forenoon of 22nd March 2005.

2. This ad hoc promotion is made purely as a stopgap measure and shall not confer any right to continue in the Grade indefinitely or for inclusion in the Select List for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Section Officers' Grade.

L. C. MAHRRA, Under Secy.

The 5th April 2005

No. A-32014/1/2004-Estt. (Pt.).—In pursuance of Department of Personnel and Training's OM No. 21/9/2004-CS. I (Pt.) dated 17.02.2005, the President is pleased to appoint S. S. Kanwar, a substantive Assistant of the CSS cadre of the Department of Commerce (Supply), to the Section Officers' Grade of Central Secretariat Service cadre of the Ministry of Social Justice & Empowerment on purely ad hoc basis w.e.f. forenoon of 1st April, 2005.

2. This ad hoc promotion is made purely as a stopgap measure and shall not confer any right to continue in the Grade indefinitely or for inclusion in the Select List for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Section Officers' Grade.

L. C. MAHRRA, Under Secy.

No. A-32014/1/2004-Estt. (Pt.).—In pursuance of Department of Personnel and Training's OM No. 21/9/2004-CS. I (Pt.) dated 17.02.2005, the President is pleased to appoint Shri Rakesh Maharshi, a substantive Assistant of the CSS cadre of the Department of Commerce (Supply), to the Section Officers' Grade of Central Secretariat Service cadre of the Ministry of Social Justice & Empowerment on purely ad hoc basis w.e.f. forenoon of 1st April, 2005.

2. This ad hoc promotion is made purely as a stopgap measure and shall not confer any right to continue in the Grade indefinitely or for inclusion in the Select List for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Section Officers' Grade.

L. C. MAHRRA, Under Secy.

No. A-32014/1/2004-Estt. (Pt.)—In pursuance of Department of Personnel and Training's OM No. 21/9/2004-CS. I (Pt.) dated 17.02.2005, the President is pleased to appoint Shri Somen Chowdhury, a substantive Assistant of the CSS cadre of the Ministry of Finance, to the Section Officers' Grade of Central Secretariat Service cadre of the Ministry of Social Justice & Empowerment on purely ad hoc basis w.e.f. forenoon of 1st April, 2005.

2. This ad hoc promotion is made purely as a stopgap measure and shall not confer any right to continue in the Grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Section Officers' Grade.

L. C. MAHRRA, Under Secy.

No. A-32014/1/2004-Estt. (Pt.)—In pursuance of Department of Personnel and Training's OM No. 21/9/2004-CS. I (Pt.) dated 17.02.2005, the President is pleased to appoint Shri D. R. Saini, a substantive Assistant of the CSS cadre of the Department of Commerce (Supply), to the Section Officers' Grade of Central Secretariat Service cadre of the Ministry of Social Justice & Empowerment on purely ad hoc basis w.e.f. the afternoon of 1st April, 2005.

2. This ad hoc promotion is made purely as a stopgap measure and shall not confer any right to continue in the Grade indefinitely or for inclusion in the Select List for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Section Officers' Grade.

L. C. MAHRRA, Under Secy.

#### MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY

(DEPARTMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY)

New Delhi-110 003, the 20th April 2005

No. 4 (56)/74-Pers. I (Vol. III)—Consequent upon the acceptance of notice of voluntary retirement from Government Service, under rule 48-A of CCS (Pension) Rules, 1972 by the Competent Authority, Shri R. K. Arora, Scientist 'G' (Emp. Code 63) in the Department of Information Technology is allowed to retire voluntarily w.e.f. forenoon of 21.04.2005.

R. K. MANCHANDA, Dy. Director

(DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS)

New Delhi-110 001, the 20th April 2005

No. 400-52/2002-STG-III—Shri A. K. Srivastava (Staff No. 482), an officer of Senior Administrative Grade of Indian Telecommunications Service Group 'A', who was working as General Manager in Karnataka Telecom. Circle of Bharat Sanchar Nigam Ltd., Expired on 24.08.2004.

AMARJIT SINGH, Under Secy.

#### MINISTRY OF RAILWAYS (RAILWAY BOARD)

New Delhi, the 13th April 2005

No. E (O) III-2005/RN/5—Consequent upon his permanent absorption in RVNL, Shri Harish Chandra, IRAS, has resigned from Railway service with effect from 11.3.2005.

M. K. AGARWAL, Secretary, Railway Board &  
Ex-Officio Additional Secretary

The 21st April 2005

No. E (O) III-2005/RN/8—Consequent upon his permanent absorption in RITES, Shri Rahul Jha, IRPS has resigned from Railway service with effect from 24.03.2005.

M. K. AGARWAL, Secretary, Railway Board &  
Ex-Officio Additional Secretary

#### MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT & HIGHWAYS

(DEPARTMENT OF ROAD TRANSPORT &  
HIGHWAYS)

New Delhi, the 5th April 2005

No. A-38014/2/2004-E I—Shri Mohammed Ibrahim, an officer of Central Secretariat Service and working as Section Officer in the Ministry of Shipping, Road Transport & Highways, Department of Road Transport Highways has retired on superannuation w.e.f. 31.03.2005 (AN).

Dr. R. K. AGRAWAL, Under Secy.

New Delhi, the 13th April 2005

No. A-32013/6/2004-E. II—The President is pleased to extend the ad hoc appointment of Shri V. Velayutham, Chief Engineer, as Additional Director General in the Department of Road Transport & Highways, Ministry of Shipping, Road Transport & Highways for a further period of six months beyond 26.01.2005 or until further orders, whichever is earlier subject to the orders of the Hon'ble High Court in this behalf.

B. N. MISHRA, Under Secy.

#### MINISTRY OF POWER

New Delhi, the 20th April 2005

No. 9/2005. F. No. A-38012/1/2005-Adm. I—Shri Vishwa Bandhu, Deputy Director, Central Electricity Authority and an officer of the Central Power Engineering (Group A) Service, retired from service under the Government of India in the afternoon of 31st March, 2005 on attaining the age of superannuation.

R. C. ARORA, Under Secy.

## MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

New Delhi, the 8th April 2005

No. PF/869/IIS—On attaining the age of superannuation, Shri M. Y. Siddiqui, a JAG Officer of IIS Group 'A' retired from Govt. service in the afternoon of 28th February, 2005.

2. Shri M. Y. Siddiqui relinquished the charge of the post of Dy. Principal Information Officer, Press Information Bureau, New Delhi on the same date.

V. K. SEKHRI, Under Secy.